



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 ज्येष्ठ 1945 (श0)
(सं0 पटना 452) पटना, वृहस्पतिवार, 1 जून 2023

सं० 5/एम0-706/2018/6111
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

संकल्प

18 मई 2023

विषय :- स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरता का परिचय देने वाले सात जवानों को प्रत्येक वर्ष 51-51 हजार रुपये पुरस्कार दिये जाने के संबंध में।

विभागीय संकल्प-सह-ज्ञापांक संख्या-5660, दिनांक-27.05.2004 द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरता का परिचय देने वाले सात जवानों को प्रत्येक वर्ष 51-51 हजार रुपये पुरस्कार दिये जाने के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत है।

2. विभागीय संकल्प-सह-ज्ञापांक संख्या-5582, दिनांक-27.06.2018 द्वारा उक्त ज्ञापांक की कंडिका-3 में निहित प्रावधान को विलोपित करते हुए, प्रति वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरता का परिचय देने वाले सात सुयोग्य पुलिस जवानों/कर्मियों का चयन करने हेतु चयन समिति का गठन किया गया था।

3. पुलिस महानिरीक्षक (अभियान), बिहार, पटना का पद उत्क्रमित कर अपर पुलिस महानिदेशक (अभियान), बिहार, पटना हो जाने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प-सह-ज्ञापांक संख्या-5582, दिनांक-27.06.2018 को अवक्रमित करते हुये प्रति वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरता का परिचय देने वाले 07 (सात) पुलिस जवानों/कर्मियों को 51-51 हजार रुपये की राशि से पुरस्कृत किये जाने हेतु दुगुनी संख्या (चौदह) में आरक्षी जवानों/कर्मियों की अनुशंसा गृह विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने हेतु बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना के स्तर पर निम्नरूपेण चयन समिति का गठन किया जाता है :-

- | | | | |
|-------|--|---|---------|
| (i) | अपर पुलिस महानिदेशक (अभियान), बिहार, पटना | — | अध्यक्ष |
| (ii) | पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, पटना | — | सदस्य |
| (iii) | पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक), बिहार, पटना | — | सदस्य |
| (iv) | पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना | — | सदस्य |

4. विभागीय संकल्प-सह-ज्ञापांक संख्या-5660, दिनांक-27.05.2004 की कड़िका-3 को छोड़कर शेष शर्तें यथावत लागू रहेंगे।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शीर्षत कपिल अशोक,
सरकार के अपर सचिव।

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 452-571+500-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>**